



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल्टन कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/न.प./सा./पीआरओपी और एपपीआर/219 (ख)/2022/4

दिनांक 05 फरवरी 2022

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनिरल्टन कंपनी, सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) के लिए अनुबंध के आधार पर वरिष्ठ परियोजना अधिकारियों और अनुबंध के आधार पर परियोजना अधिकारियों के निम्नलिखित पदों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है।

I. पदों का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव :-

तालिका 1

क्र. सं.	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
1.	वरिष्ठ परियोजना अधिकारी (यांत्रिक) – अनुबंध के आधार पर।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ यांत्रिक अभियांत्रिकी में उपाधि।	अनिवार्य : योग्यता प्राप्त करने के बाद, <ul style="list-style-type: none">• पोत निर्माण कंपनी या• पोत मरम्मत कंपनी या• समुद्री संबंधी कंपनी या• पत्तन या• इंजीनियरिंग कंपनी या• सरकारी कंपनी या स्थापना या• अर्ध-सरकारी कंपनी या स्थापना में न्यूनतम चार वर्षों का अनुभव। वांछनीय: कंप्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने की दक्षता एवं अनुभव।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

क्र. सं.	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
2.	परियोजना अधिकारी (यांत्रिक) – अनुबंध आधार पर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ यांत्रिक अभियांत्रिकी में उपाधि।	<p>अनिवार्य :</p> <p>योग्यता प्राप्त करने के बाद,</p> <ul style="list-style-type: none">• पोत निर्माण कंपनी या• पोत मरम्मत कंपनी या• समुद्री संबंधी कंपनी या• पत्तन या• इंजीनियरिंग कंपनी या• सरकारी कंपनी या स्थापना या• अर्ध-सरकारी कंपनी या स्थापना <p>में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>कंप्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करने की दक्षता एवं अनुभव।</p>

उपरोक्त पदों के लिए उम्मीदवारों को बंगाली/हिंदी में संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए।

II. महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत : 08 फरवरी 2022

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 28 फरवरी 2022



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल्टन कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

III. रिक्तियों और आरक्षणों की सं.

तालिका 2

क्र.सं.	पद का नाम	अनारक्षित	पीडब्ल्यूबीडी
1.	वरिष्ठ परियोजना अधिकारी (यांत्रिक)	1	1
2.	परियोजना अधिकारी (यांत्रिक)	1	
	कुल पद	2	

- (i) किसी भी शाखा में रिक्तियों की संख्या बढ़ाने /घटाने या किसी भी रिक्तियों को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को अपनी आवश्यकता के अनुसार रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।
- (ii) कुल 2 पदों में से एक पद बेंचमार्क दिव्यांग आवेदकों के लिए अंकित किया गया है जो निम्नानुसार हैं:

तालिका 3

श्रेणी	बेंचमार्क दिव्यांगजता	पहचाने गए पद
श्रेणी (ख)	बहरा और सुनने में कठिन ;	क.1 और ख.1
श्रेणी (ग)	सेरेब्रल पाल्सी, ठीक किए गए कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ितों और मस्कलन डिस्ट्रॉफी सहित चलन दिव्यांगजता।	

IV. अनुबंध की अवधि और तैनाती का स्थान :

- क. उपरोक्त पद अस्थायी प्रकृति के हैं और परियोजना की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत प्रदर्शन के अधीन अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए हैं।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल्टन कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

ख. तैनाती, सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)/किसी भी अन्य सीएसएल यूनिटों /सीएसएल द्वारा वांछित किसी भी परियोजना स्थल पर होगी।

V. पारिश्रमिक

पदों के लिए पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार हैं :

तालिका 4

पदों का नाम	अनुबंध अवधि	समेकित वेतन (प्रति माह)	काम के अतिरिक्त घंटों के लिए मुआवज़ा (प्रति माह)
वरिष्ठ परियोजना अधिकारी – अनुबंध के आधार पर	प्रथम वर्ष	₹ 47,000/-	₹ 3000/-
	द्वितीय वर्ष	₹ 48,000/-	
	तृतीय वर्ष	₹ 50,000/-	
परियोजना अधिकारी – अनुबंध के आधार पर	प्रथम वर्ष	₹ 37,000/-	₹ 3000/-
	द्वितीय वर्ष	₹ 38,000/-	
	तृतीय वर्ष	₹ 40,000/-	

VI. आयु

क. अनुबंध आधार पर वरिष्ठ परियोजना अधिकारी के पद के लिए, आयु दिनांक 28 फरवरी 2022 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् आवेदकों का जन्म दिनांक 01 मार्च 1987 को या उसके बाद होना चाहिए।

ख. अनुबंध आधार पर परियोजना अधिकारी के पद के लिए, आयु दिनांक 28 फरवरी 2022 को 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् आवेदकों का जन्म दिनांक 29 फरवरी 1992 को या उसके बाद होना चाहिए।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल्टन कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

ग. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। तथापि, किसी भी स्थिति में, आयु सीमा में सभी छूट लागू करने के बाद परियोजना अधिकारियों के लिए 45 वर्ष और वरिष्ठ परियोजना अधिकारियों के लिए 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

VII. चयन की विधि

क. चयन की विधि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के माध्यम से होगी। अंतिम चयन के लिए अंक निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार नियत किया जाएगा।

- वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा - 50 अंक
 - वैयक्तिक साक्षात्कार - 20 अंक
 - साक्षात्कार और प्रस्तुति के दौरान चयन समिति द्वारा मूल्यांकन के अनुसार संगत कार्य अनुभव - 30 अंक
- कुल - 100 अंक

ख. ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल द्वारा तय किए अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा पश्चिम बंगाल में और ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के ज़रिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र का आबंटन सीएसएल के विवेकाधिकार पर होगा।

ग. वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा 60 मिनट की अवधि की होगी जिसमें सामान्य ज्ञान (10 अंक) और विषय आधारित (40 अंक) के क्षेत्रों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है और कोई नेगटिव अंक नहीं होगा।

घ. वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करनेवाले उम्मीदवारों को, योग्यता के क्रम में, 1 पद: 6 उम्मीदवारों के अनुपात के अधीन वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए लघुसूचीगत किया जाएगा। ऐसी लघुसूचीयन के लिए, मेरिट सूची में आरक्षित उम्मीदवारों को योग्यता के साथ-साथ आरक्षण पद के लिए भी गिना जाएगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल्टन कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के विषय भाग में प्राप्त अंक योग्यता के क्रम को निर्धारित करने का आधार होंगे। उसके बाद बराबरी होने के स्थिति में, आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता का निर्णय किया जाएगा। सभी पदों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कुल अंकों का 50% होगा।

- ड. वैयक्तिक साक्षात्कार सीकेएसआरयू में आयोजित किया जाएगा या कोविड-19 महामारी के मुद्दों के देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से होगा।
- च. उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन सीएसएल द्वारा तय किए गए किसी भी समय किया जाएगा और वे उम्मीदवार जो केवल पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें ही आगे की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- छ. वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, अनुभव और वैयक्तिक साक्षात्कार में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर विभिन्न पदों के लिए रैंक सूची तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो, आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता का निर्धारण किया जाएगा।
- ज. अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के सामने ऑनलाइन आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं के आधार पर उम्मीदवारों को लघुसूचीगत करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।

VIII. शर्तें

क. आरक्षण

- (i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।
- (ii) बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक वैध दिव्यांगजता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

ख. योग्यता

- (i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ भारत/या राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण से द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- (ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iii) आवेदकों को पदों के लिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है। कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड परिभाषित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड को परिभाषित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है।

ग. अनुभव

- (i) उपरोक्त मद I के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 28 फरवरी 2022 से की जाएगी।
- (ii) शिक्षु अधिनियम के तहत संगत शाखा में शिक्षुता प्रशिक्षण सहित पारिश्रमिक के साथ सभी प्रकार के प्रशिक्षण को अनुभव के रूप में माना जाएगा।
- (iii) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों या समकक्ष स्थिति की विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्रों पर ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु विचार किया जाएगा।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (iv) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति/प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोजगार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने के लिए भी सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) पंजीकृत कंपनियों द्वारा लगे ठेकेदारों (स्वामित्ववाली फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव को ठेकेदार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार पर माना जा सकता है। ऐसे आवेदकों को ईएसआई/इपीएफ विवरण जैसे अन्य प्रमाणों के साथ अपने अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र या पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करना चाहिए। जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vii) जो इस रिक्ति अधिसूचना की तिथि अनुसार सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी अन्य सभी अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जो सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध के पहले वर्ष या दूसरे वर्ष में हैं, वे समान पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

घ. आवेदन शुल्क

- i) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का उपयोग करके ₹ 400/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 08 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ii) अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित लोगों को छोड़कर, उपरोक्त खंड घ (i) में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

ड. आवेदन कैसे करें

- i) आवेदकों को वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक पर जाना चाहिए। आवेदन दो चरण होते हैं – पंजीकरण और आवेदन प्रस्तुत करना। आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।
- ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ज़रिए जाकर पंजीकरण पूरा कर सकते हैं और दिनांक 08 फरवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं और यह सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- iii) ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के प्रमाण के सभी प्रमाणपत्र और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए एक हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ सिस्टम में तैयार रखा जाएगा।
- iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के प्रमाण के सभी प्रमाणपत्र और हाल ही में एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में अपलोड किया गया है, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार किया जाएगा।
- v) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- vi) इस विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सफलतापूर्वक आवेदन प्रस्तुत करने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vii) ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीकेएसआरयू के साथ किसी भी पत्राचार के लिए उद्धृत की जानी चाहिए।
- viii) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क सीकेएसआरयू/सीएसएल को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- ix) वेबसाइट दिनांक 08 फरवरी 2022 से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 28 फरवरी 2022 है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों

को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।

च. सामान्य

- (i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्त अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।
- (ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा:- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।
 - क. जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और
 - (i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या
 - (ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या
 - (iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है।
 - ख. जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात् निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या
 - ग. सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल्टन कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या

- घ. कार्मिक, जो अप्रैल 14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
 - ङ. प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या
 - च. चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो।
- iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career.cksru@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीकेएसआरयू निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iv) चयन प्रक्रिया के लिए लघुसूचीगत किए गए आवेदकों की उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी होगी, जो शामिल होने के समय या किसी अन्य स्तर पर आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन होगी। यदि उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते पाए जाते हैं, या मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उम्मीदवार पर चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।
- v) लघुसूचीगत उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे। उन्हें बुलावा पत्र को ई-मेल/सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए सूचित किया जाएगा।
- vi) चयन में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- vii) केवल ऑनलाइन आवेदन जमा करने और चयन प्रक्रिया के लिए बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- viii) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।
- ix) नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच सीकेएसआरयू की ओर से सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।
- x) सीएसएल सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले कार्यरत किसी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/छुट्टी वेतन/उपदान/पेंशन अंशदान आदि, यदि कोई हो, के लिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।
- xi) अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।
- xiii) अनुच्छेद I में दर्शाए गए पदों की संख्या मौजूदा आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल्टन कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने/बदलने/रद्द करने/संशोधित करने का अधिकार है।
- xv) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी झूठा/गलत है या उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/अस्वीकार की जा सकती है।
- xvi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- xvii) इस विज्ञापन से उठने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई/और या उसके जवाब में एक आवेदन केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/फॉर्म में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/प्राधिकरणों का एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- xviii) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।
- xix) आगे कोई स्पष्टीकरण हेतु, कृपया ई-मेल career.cksru@cochinshipyard.in द्वारा संपर्क करें।

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।”

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)